



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 वैशाख 1947 (श10)
(सं0 पटना 958) पटना, बुधवार, 21 मई 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
25 अप्रील 2025

सं० 1स्था०-33/2024-986/वि०स०--बिहार विधान सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-758 दिनांक 21.03.2025 द्वारा संविदा के आधार पर सभा सचिवालय के पदों पर नियोजन हेतु गठित चयन समिति की दिनांक-24.04.2025 की बैठक में सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-3497, दिनांक 26.12.2025 द्वारा निर्गत “बिहार विधान सभा सचिवालय (संविदा आधारित नियोजन की पद्धतियाँ) आदेश, 2024” तथा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000, दिनांक 10.07.2015 एवं परिपत्र संख्या-11398, दिनांक 23.08.2016 में किये गये प्रावधान के तहत सभा सचिवालय के निदेशक के पद से दिनांक 30.04.2025 को सेवानिवृत्त होने वाले श्री अमलेन्द्र प्रसाद महतो को निदेशक के पद पर दिनांक 01.05.2025 से अगले एक वर्ष यानि दिनांक 30.06.2026 तक संविदा आधारित शर्तों के अधीन किया जाता है :-

- (क) यह नियोजन योगदान की तिथि से प्रथमतः एक वर्ष अथवा प्रोन्नत पद पर सरकारी सेवक की प्रोन्नति होते ही प्रोन्नति के पद पर किया गया नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा ।
- (ख) संकल्प की कडिका-3(2)(क)(vi) के तहत कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी ।
- (ग) संकल्प की कडिका-3(5) के तहत योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने से संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
- (घ) संकल्प की कडिका-3(6)(i) के अनुरूप मासिक मानदेय देय होगा । कडिका-3(6)(ii) के तहत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा । कडिका-3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन / पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा ।

मानदेय का भुगतान सभा सचिवालय के मुख्य बजट शीर्ष के विपत्र कोड के अंतर्गत सविदा सेवायें के लिए अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

- (च) संकल्प की कंडिका-(4) के तहत पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।
- (छ) संकल्प की कंडिका-(5) के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
सुधीर कुमार सिंह,
अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 958-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>